

By E-filing

REF:TEIL:SE:

Date: 30th July, 2026

BSE Limited P.J. Tower, Dalal Street, Fort, MUMBAI - 400 001 Thru: BSE Listing Centre	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI - 400 051 Thru: NEAPS
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI
Sub: Newspaper's advertisement pertaining to unaudited Financial Results for Q1 FY27 ended June 30, 2026	

Dear Sirs,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 as amended, we enclose copies of the newspapers advertisement pertaining to the unaudited financial results of the Company for the Q1 FY27 ended on June 30, 2026 published in the Business Standard (English & Hindi) today i.e., July 30, 2026.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Triveni Engineering & Industries Ltd.,



GEETA BHALLA
Group Vice President &
Company Secretary
M.No.A9475

Encl: As above

‘Sheffield of the East’ awaits its turn of fortune

PHOTO: SHUTTERSTOCK



Entrepreneurs say politics has repeatedly trumped economics in Bengal — a reason why, despite 35 years of liberalisation, the ‘Sheffield of the East’ has struggled to capitalise on opportunities that led to industrial clusters in the rest of India



FROM PAGE 1

The foundry park — one of West Bengal’s largest industrial hubs, spread across more than 900 acres on Ranihati-Amta Road — is another place where some units have set up shop; others are coming up.

As Sehgal speaks, the occasional screech of grinding machinery from his unit cuts through the conversation, a reminder that manufacturing activity continues to hum through this industrial belt. But that’s about it. More than three decades after India opened up its economy, Howrah’s foundry hub has struggled to translate liberalisation into industrial renewal.

Untouched by reforms

In 1992-93, Naresh Jalan set up a forging unit in Liluah, Howrah. But the business and political climate of the time offered little encouragement. “It pushed us to Jharkhand, which was closer to both the customer base and raw material sources. In 1996, we set foot in Jamshedpur,” Jalan recalls. Jamshedpur was part of Bihar before the creation of Jharkhand in 2000.

Today, Jalan’s Ramkrishna Forgings is the country’s second-largest forging company, supplying forged, machined and fabricated products to diverse sectors ranging from automotive to oil and gas. But its principal manufacturing base lies in Jharkhand, not West Bengal.

Jalan took a shot at expanding in West Bengal when he planned to set up an ancillary unit for the Nano car project in Singur. In 2006, it was among nearly 60 ancillary units that had lined up to supply components for Tata Motors’ ambitious small car project. The fate of that venture, however, is now part of Bengal’s industrial folklore.

Backed by Mamata Banerjee, then and now in the Opposition, about 20 per cent of landowners came out against land acquisition at Singur, eventually forcing Tata Motors to relocate the Nano project. The episode reshaped Bengal’s politics, ending the Left Front’s 34-year rule. Alongside, it also extinguished a potential vendor ecosystem that many believe could have powered the growth of the state’s foundry and forging industry.

Entrepreneurs say politics has repeatedly trumped economics in Bengal — a reason why, despite 35 years of liberalisation, the ‘Sheffield of the East’ has struggled to fully capitalise on the opportunities that led to industrial clusters in other parts of the country.

Forces that blunted reforms

“After 1991, the government freed our hands,” says 75-year-old Dinesh Seksaria, who runs two foundry units — Govind Steel and Dinesh Brothers. “Raw materials became freely available

and we could import machines from anywhere in the world.”

However, while liberalisation dismantled many of the old controls, Howrah remained trapped by older constraints, burdened by trade unionism and years of capital flight.

If the United Front years, beginning in 1967, were marked by the Naxalite movement and political unrest, the Congress regime of Siddhartha Shankar Ray that followed focused on suppressing it.

The long Left Front era, which began in 1977, brought political stability but also a period of aggressive trade unionism that many businessmen blame for driving investment out of the state through the 1970s, ‘80s, and later.

“The decay in Bengal began with the United Front government in 1967. Then came the Communist regime in 1977, which changed everything in Bengal,” Seksaria says.

Managements spent most of their time dealing with day-to-day labour issues, he recalls. “Every year, there would be strikes and *gheraos*. At times, the police had to step in and rescue us. And when we went for labour meetings, we would have a heavy *‘nashta’* (breakfast) because we never knew when we would be back.”

Capital is the most sensitive bird, Seksaria notes. “The moment it feels threatened, it migrates to a place where it feels safer and more welcome.”

That’s when new investment dried up, Sehgal points out. “Existing companies stayed on, but investment in technology and modernisation slowed. Many diversified into other businesses instead.”

“We played safe. The moment you expanded, you had to deal with more unions and more labour trouble. So ours became a conservative generation,” adds Sehgal, who has spent nearly five decades in the industry.

As foundry clusters in southern and western India modernised and expanded, Howrah was largely left behind. This reflected in the labour market as well. Workers who once

A rich legacy, interrupted

- The foundry industry in Bengal started during the mid-19th century spurred by the requirement of spares for jute and cotton industries
- The Howrah foundry cluster emerged in its present form by the end of the First World War
- Following the Independence, the industry gained momentum with industrial expansion
- There are about 500 foundry and forging units; 95% are concentrated in Howrah, around 20% serve export markets
- These units produce castings and forgings used across heavy industry, infrastructure and engineering
- 40,000-45,000 employed directly and indirectly across the sector
- The broader ecosystem, including ancillaries, supports nearly 90,000 livelihoods

flocked to the city from Odisha, Bihar and Uttar Pradesh, increasingly chose opportunities in their native state, or newer industrial centres.

The missing anchors

A feeling of stagnation pervades conversations with business owners. “Even 30 to 35 years ago, Howrah was exporting sanitary castings, and it is still exporting sanitary castings today,” says Vijay S Beriwal of Vidit Group, joint chairman of the Foundry Cluster Development Association (FCDA), the special purpose vehicle behind the foundry park project.

Beriwal’s comment underscores how little the cluster’s industrial profile has evolved over the decades. “They earn valuable foreign exchange, but don’t compare with the higher margin and technologically advanced value-added industrial castings, which are manufactured less at Howrah. That transition can happen only when OEMs (original equipment manufacturers) are present and anchor an ecosystem of suppliers,” he adds.

About six decades ago, customers from across the country would come to Howrah in search of castings and engineering products, says Sandip Dutta, president of the Howrah Foundry Association.

“Today, the world has moved ahead, technology has transformed the industry, but Howrah has been left behind.”

The decline of Bengal’s industrial base gathered pace over decades — many jute mills shut down, textile mills vanished and several heavy engineering companies faded away.

The early 2000s saw a push for industrialisation under then chief minister Buddhadeb Bhattacharjee. But Singur brought that chapter to an abrupt and grinding halt, dashing hopes of a manufacturing revival that many in the foundry industry had pinned their future on.

The subsequent 15 years of Trinamool Congress rule — characterised by a hands-off policy on land acquisition and a lack of major incentives for industry — kept large-scale investments away from the state.

Indeed, the sense of ‘what if’ resonates quite strongly here. Had Singur taken off, it could have become another Jamshedpur, Beriwal says. “Any major industrial hub generates a vast network of ancillary units and suppliers — the entire ecosystem changes.”

However, with the Bharatiya Janata Party forming the government in the state after the assembly election earlier this year, some are hopeful that large industries will come and set up shop here.

Jalan says West Bengal is back on Ramkrishna Forgings’ radar. “We are looking to set up a large export-oriented unit.” The decision, however, may depend on land availability and government incentives.

Psychologically, everyone is more open to investing in the state, says Seksaria.

Whether Howrah, which watched the reform era unfold without fully sharing in its gains, can now regain its lost glory under a “double-engine” dispensation at the Centre and in the state remains to be seen.

Refex Industries Limited
Registered Office: 2nd Floor Refex Towers, Sterling Road Signal, 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600034, Tamil Nadu, India.
Phone: +91 44 3504 0950 | website: www.refex.co.in | CIN: L45200TN2002PLC049601

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS, BOTH STANDALONE & CONSOLIDATED FOR THE 1st QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2026 OF THE FINANCIAL YEAR 2026-27

Refex Industries Limited [Company] hereby informs that the Board of Directors of the Company at its meeting held on Wednesday, July 29, 2026 had inter-alia considered and approved the Unaudited Financial Results for the first quarter ended June 30, 2026 of the financial year 2026-27 [Results] both on standalone & consolidated basis, and took on records, the Limited Review Reports thereon, issued by Statutory Auditors of the Company.

In compliance with Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Results are made available through quick response code [QR code] given below and the same is also published on the website of the Company [https://www.refex.co.in/investors] and Stock Exchange websites i.e. BSE Limited [www.bseindia.com] & National Stock Exchange of India Limited [www.nseindia.com].

SCAN THIS QR CODE TO VIEW THE 1st QUARTER RESULTS OF THE FINANCIAL YEAR 2026-27

By Order of the Board
For Refex Industries Limited

Anil Jain
Chairman & Managing Director
DIN - 00181960

Place: Chennai
Date: July 29, 2026

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026

(₹ in crores, except per share data)

Particulars	3 Months ended		Year ended
	30/Jun/2026 (Unaudited)	30/Jun/2025 (Unaudited)	31/Mar/2026 (Audited)
Total Income from operations	1950.14	1904.17	7281.96
Net Profit/(loss) for the period from continuing operations (before tax and exceptional items)	4.68	(8.73)	260.18
Net Profit/(loss) for the period from continuing operations before tax (after exceptional items)	4.68	(8.73)	249.17
Net Profit/(loss) for the period from continuing operations after tax (after exceptional items)	3.65	(6.62)	183.77
Net Profit/(loss) for the period from discontinued operations (before tax and exceptional items)	-	11.59	118.02
Net Profit/(loss) for the period from discontinued operations before tax (after exceptional items)	-	11.59	114.97
Net Profit/(loss) for the period from discontinued operations after tax (after exceptional items)	-	8.72	84.94
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3.99	2.65	270.77
Equity share capital	22.04	21.89	21.89
Other equity			3320.94
Earnings/(loss) per share of ₹1/- each for continuing operations (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	0.17	(0.30)	8.34
(b) Diluted (in ₹)	0.17	(0.30)	8.34
Earnings/(loss) per share of ₹1/- each for discontinued operations (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	-	0.40	3.85
(b) Diluted (in ₹)	-	0.40	3.85
Earnings/(loss) per share of ₹1/- each for continuing and discontinued operations (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	0.17	0.10	12.19
(b) Diluted (in ₹)	0.17	0.10	12.19

Notes:

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under: (₹ in crores)

Particulars	3 Months ended 30/Jun/2026 (Unaudited)	30/Jun/2025 (Unaudited)	Year ended 31/Mar/2026 (Audited)
Total Income from operations	1949.91	1903.95	7281.59
Profit/(loss) from continuing operations before tax (after exceptional items)	(2.34)	(19.02)	235.02
Profit/(loss) from continuing operations after tax (after exceptional items)	(1.72)	(14.31)	173.62
Total comprehensive income	(1.44)	(5.04)	260.62

2. The Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench ('Hon'ble NCLT') vide its orders dated May 7, 2026 and May 18, 2026 has approved the Composite Scheme of Arrangement ('the Scheme') amongst Triveni Engineering & Industries Limited ('TEIL/the Company'), Sir Shadi Lal Enterprises Limited ('SSEL') and Triveni Power Transmission Limited ('TPTL'). Certified copies of Hon'ble NCLT's orders were filed with the Registrar of Companies on May 19, 2026 ('Effective date'). In accordance with the Scheme:

(a) SSEL stands amalgamated with TEIL w.e.f. the amalgamation appointed date of April 1, 2025 and accordingly, accounted for in the quarter ended March 31, 2026. The figures for the comparative quarter ended June 30, 2025 have been restated to reflect the effect of amalgamation.

(b) Power Transmission Business undertaking (PTB undertaking) of TEIL has been demerged and vested in TPTL as a going concern, w.e.f. the demerger appointed date of April 1, 2026, as approved by Hon'ble NCLT. Consequent to transfer of PTB undertaking to TPTL and TPTL becoming an associate of the Company w.e.f. April 1, 2026, the Group has considered its share in TPTL's results under the equity method of accounting. In terms of the requirements of Ind AS 105 'Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations' and Schedule III to the Companies Act, 2013, operations of PTB undertaking of comparative periods have been classified as 'Discontinued operations' in the financial results.

3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com).

For **TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-
Dhruv M. Sawhney
Chairman & Managing Director

Place : Noida
Date : July 29, 2026

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301
Website: www.trivenigroup.com | CIN: L15421UP1932PLC022174

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — every day with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS reaches to 57575 or email order@bsmail.in

HDFC BANK We understand your world	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, द्वितीय तल, बैंक बैंक कॉरिडोर, बरौलीबी रोड, नवना रोड, निकट कोमोडोम निष्ठा – बरौलीएचडीएफसी बुनियादी ढांचा, नगर मार्ग, नेहरू, उत्तर प्रदेश-200001
कच्चा सूचना (अवल संपत्ति के लिए) (नियम 8(1))	
जबकि, ओहोहस्ताक्षरी ने, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड , पंजीकृत कार्यालय : बैंक हाउस, सेनापति बागट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 तथा इसका एक कार्यालय एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (विशेष कार्य विभाग है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन निगमावली, 2002 के नियम 3 के संघटित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 21-04-2026 जारी की थी, जिसमें 1. मेसर्स शिवा एंजोसिस्टिइस इस्को स्लामी स्व रवि कुमार उनके माध्यम से, पता : पालिका बाजार दुकान नंबर एलजीएफ 3, निकट चौबीसी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 2. स्व रवि कुमार पुत्र श्री ऋषि पाल सिंह (दिवंगत) (सह-कर्जदार) उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से, पता : मकान नंबर 00, जलालपुर, रघुनाथपुर, गाजियाबाद, मुगलनगर, उत्तर प्रदेश-201206 3. ऋषि पाल सिंह (रवि कुमार के कानूनी वारिस, सह-कर्जदार एवं संबंकदाता) पता : ग्राम ताजपुर, सैदपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-245411 4. श्रीमती पूनम पत्नी स्व रवि कुमार (रवि कुमार की कानूनी वारिस) पता : ग्राम ताजपुर, सैदपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-245411 से मांग सूचना में वर्णित अनुसार बकाया कुल राशि रु. 9,86,232.36/- (नवसे नौ लाख शियाल हज़ार दो सौ बत्तीस तथा पैसे छत्तीस मात्र) का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।	
कर्जदार उक्त राशि ऋकाने में अग्रफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार(री) और संस्थाधारक को सूचना दी जाती है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त निगमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उक्तको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा 25-07-2026 को ले लिया है।	
कर्जदार का ध्यान, प्रत्यभूत आसितियों को ऋकाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।	
कर्जदार को विशेष रूप से और संस्थाधारक को नीचे वर्णित संपत्ति के संबंध में संबंधित बैंक लिमिटेड नही करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संस्थाधारक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बकाया कुल राशि रु. 9,86,232.36/- (नवसे नौ लाख शियाल हज़ार दो सौ बत्तीस तथा पैसे छत्तीस मात्र) (उस पर ब्याज, खर्च तथा शुल्क इत्यादि -) चुकाई गई राशि, यदि कोई, के अधीन होगा।	
अवल संपत्ति का विवरण	
प्लॉट नंबर 227, क्षेत्रफल परिमाण 83.61 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 73 एमआई का मार्ग, प्रयागनगर विहार, फेज-4, (नगर पालिका नंबर 325) ग्राम सादविन्धा, जलालपुर रोड, मोदीनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद-201204 (संपत्ति की ऋणपाल सिंग पुत्र सरदार सिंह द्वारा स्वाधिकृत, चौदहवीं निगमावस्था - पृष्ठ : रास्ता 32 फीट चौड़ा, पश्चिम : प्लॉट नंबर 268, उत्तर : मिर्जा का प्लॉट, दक्षिण : धनेश चंद की भूमि	
तिथि : 25-07-2026 स्थान : मोदीनगर, (गाजियाबाद) प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	

Coforge कोर्फोर्ज लिमिटेड CIN: L72100HR1992PLC128382 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 13, उद्योग विहार, फेज-IV, सेक्टर-18, पालम रोड, गुरुग्राम-122015, हरियाणा, भारत फोन : 0124 - 4627837. ई-मेल: investors@coforge.com, वेबसाइट: https://www.coforge.com
34वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **कोर्फोर्ज लिमिटेड** (कंपनी) के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 34वीं वार्षिक साधारण बैठक (पूजीएफ) **सोमवार, 24 अगस्त 2026 को आरम्भ 05:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (सीसी)/उपस्थिति वीडियो क्लिपिंग माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020 के सामान्य परिपत्रों तथा नवीनतम परिपत्र सामान्य परिपत्र संख्या 03 / 2025 तिथि 22 सितंबर 2025 (सामूहिक रूप से "एमसीओ परिपत्र") के रूप में संशोधित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन होगी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, पूजीएम आयोजित करने वाली सूचना के साथ, यथासमय केवल ईमेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते एमसीओ परिपत्रों तथा सभी परिपत्रों के अनुसार कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)/डिजिटल प्रमाणियों (डीपी) के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज www.coforge.com, रजि.एसएसएन की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामिल होने के निर्देश तथा रिपोर्ट ई-वोटिंग में मांग लेने या एलजीएम के माध्यम से मतदान करने का तरीका पूजीएम आयोजित करने वाली सूचना में प्रदान किया गया है। सूचना में उन शेयरधारकों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल से संबंधित निर्देश भी शामिल हैं, जो मौलिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं, और जिन्होंने अपना ईमेल पता न तो कंपनी के पास और न ही अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत कराया है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति (कार्रम) के उद्देश्य से गिना जाएगा।

मौलिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने मौलिक शेयरों को डिमेंटरियाइज्ड (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें और मौलिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करें।

ईमेल पते तथा बैंक विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया :

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसएसआर-1 में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र (कंपनी की वेबसाइट <https://www.coforge.com/hubs/Form-ISR-1.pdf> पर उपलब्ध) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति तथा पते के प्रमाण और उक्त फॉर्म में प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ भेजकर (i) संबंधित डिजिटल प्रमाणियों (डिमेंटरियाइज्ड शेयरों के मामले में) या (ii) कंपनी को investors@coforge.com पर अथवा एमयूएफजी इन्फोइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी-101, प्रथम तल, एंशेसी 247, एलबीएस मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई - 400 083 ("आरटीए") को investor.helpdesk@in.mps.mufg.com पर (मौलिक शेयरों के मामले में) संपर्क करके अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कराएं।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थानीय खाता संख्या (पैन), अधिदेश (मैंडेटर), नामांकन, मुख्यालय (पावर ऑफ अटॉर्नी), बैंक विवरण जैसे कि बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड आदि से संबंधित परिवर्तनों, यदि कोई हो, की सूचना यदि शेयर उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं तो अपने डीपी को दें, और यदि शेयर उनके द्वारा मौलिक रूप में रखे गए हैं तो आरटीए एमयूएफजी इन्फोइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्धारित फॉर्म आईएसएसआर-1 तथा अन्य फॉर्मों में सही परिपत्र संख्या SEBI/HO/MRSD/ MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 तिथि 3 नवंबर 2021, SEBI/HO/MRSD/MRSD_RTAMB/P/CIR/2021/687 तिथि 14 दिसंबर 2021 के साथ पठित सभी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/ MIRSD/MRSD-PoD/P/CIR/2025/91 तिथि 23 जून 2025 और समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार दें।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, सदस्यगण निवेशक सेवा विभाग को investors@coforge.com या investor.helpdesk@in.mps.mufg.com पर लिख सकते हैं।

कुते एवं हिरे कोर्फोर्ज लिमिटेड हस्ता/- बरखा मार्ग कम्पनी साविन ACS: 24060

तिथि : 29 जुलाई 2026 स्थान : ग्रेटर नोएडा

SBI

भारतीय स्टेट बैंक

शाखा कार्यालय: सेक्टर-61, डी-211/1, सेक्टर-61, नोएडा-201307.

सोने के आभूषणों की बिक्री हेतु सूचना

निम्नालिखित व्यक्ति जिन्होंने स्वर्ण के अभूषणों को गिरवी रखकर ऋण लिया था, उन्होंने हमारे मांग सूचना के बाद भी राशि नहीं चुकाई है। इसलिए इस सूचना के माध्यम से ऋणी को सुचित किया जाता है कि मूल धन, ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान 07 / 08 / 2026 दोपहर 2:00 बजे तक नहीं किया गया तो गिरवी रखे गए आभूषणों की सार्वजनिक रूप से नीलामी 07 / 08 / 2026 सायं 4:00 बजे बैंक परिसर में बैंक के नियमों और विनियमों के अधीन की जाएगी। बैंक बिना किसी सूचना और कारण बताए नीलामी को किसी अन्य सुविधा जनक तारीख तक रद्द / स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्र.सं.	स्वर्ण खाता संख्या	ऋणी का नाम	देयता
01	स्वर्ण खाता संख्या 43713821860	मिस पूनम दुबे सरस्वती कुंज, गौड़ सिटी-2, डी.एफ. पैलेस के सामने, ग्रेटर नोएडा.	₹.5,55,586/- अर्जित ब्याज एवं लागू शुल्क

स्थान: नोएडा
दिनांक: 29/07/2026

हस्ता/- शाखा प्रमुख, भारतीय स्टेट बैंक,
डी-211/1, सेक्टर-61, नोएडा

प्रारंभ सं. 14 [निविदा 33(2) देखें]	
कार्यालय ऋण वसूली अधिकारी-1/II ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) चौथा तल, जीवन तार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	
मांग सूचना	
ऋण वसूली और दिवाल्या अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 तथा आवक अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत सूचना	
आर.सी./18/2026	
01.06.2026	
सूचन बैंक ऑफ इंडिया	
बनाम	
मैसर्स अमित कुमार	
सेवा में,	
(सीडी 1) श्री अमित कुमार पुत्र श्री देवी प्रसाद शर्मा जे-354, पहली मंजिल, ऋषि नगर, रानी बाग, सेंट्रल, दिल्ली-110034, इसके अलावा: 169-ए, एलएससी, 6 डीडीए मार्केट, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063, इसके अलावा: 2693, चौ198-जोर बाग, त्रि नगर, दिल्ली-110035	
(सीडी 2) श्रीमती भावना शर्मा पत्नी श्री अमित कुमार निवासी जे-354.1 मंजिल, ऋषि नगर, रानी बाग, दिल्ली-110034	
यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2) टीए/169/2023 में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार क्र. 19,02,194 (रुपये उन्नीस लाख दो हजार एक सौ चौतानवे मात्र) तथा पेंडेंटलाइट और 08.07.2016 से वसूली तक 10.7% वार्षिक साधारण भावी ब्याज तथा लागत रु. 22,250 (रुपये बाईस हजार दो सौ पचास मात्र) आपके (संयुक्त एवं पृथक-पृथक/पूर्णांत/सीमित) विरुद्ध बकाया है।	
2. आपको एतद्वारा उपरोक्त राशि का भुगतान नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर करने निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर बैंकों और वित्तीय संस्थान ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके तहत नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।	
3. आपको आदेश दिया जाता है कि आप अगली सुनवाई को तारीख को या उससे पहले शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित करें।	
4. एतद्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप भावी कार्यवाही के लिए अधोहस्ताक्षर की समक्ष 31.07.2026 को सुबह 10.30 बजे उपस्थित हों।	
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे:	
(क) प्रमाण पत्र/निष्पादन कार्यवाही के इस नोटिस के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय ऐसे ब्याज।	
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की सेवा के संबंध में बकायों की वसूली के लिए की गई अन्य सभी कार्यवाही हेतु किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।	
मेरे हस्ताक्षर तथा इस अधिकरण की मुहर सहित 01.06.2026 को	
वसूली अधिकारी	
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी 2)	

हाट्टान कम्प्युनिकेशंस लिमिटेड सीआईएन: U70102HR1988PLC030379
कार्यालय: प्लॉट नंबर 316, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम, हरियाणा -122016
सार्वजनिक सूचना
फॉर्म आईएससी-4
माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, कोर्ट-क द्वारा सीपी नंबर 1/सीएनडीएआरवाई/2025 में 23.07.2026 को दिए गए आदेश के पैराग्राफ 8 के निर्देश (iii) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 के तहत दिनांक 10.08.2024 के विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित कंपनी की शेयर पूंजी में कमी की माननीय अधिकरण पृष्ठ की गई है। तदनुसार, सार्वजनिक और नॉन-प्रमोटर गैर-सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारकों द्वारा धारित रु. 10/- प्रत्येक के 25,62,555 इक्विटी शेयर रद्द कर दिए गए हैं और समाप्त कर दिए गए हैं, और ऐसे शेयरधारक प्रति इक्विटी शेयर रु. 111/- (रुपये एक सौ ग्याह मात्र) का प्रतिक्रिप्त प्राप्त करने के हकदार हैं, जो खोत पर कर की कटौती, जैसा भी लागू हो, के अधीन है।
कंपनी ने उन सदस्यों के नाम निर्धारित करने के लिए 10.08.2026 को 'रिफाईं तिथि' के रूप में निर्धारित किया है जो उक्त पूंजी कटौती पर प्रतिक्रिप्त प्राप्त करने के हकदार हैं और जिनके इक्विटी शेयर उसके अनुसार रद्द कर दिए गए हैं, जैसा कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के रजिस्टर या या डिजिटल द्वारा प्राप्त लाभभोगी स्थायिकता की सूची में रिफाईं तिथि पर दर्ज है। कंपनी को आईएसआईएन INE0A9Q0101. रिफाईं तिथि के व्यावसायिक घंटों के अंत से एग्रेसिवली द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी। संबंधित शेयरधारकों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने अपडेटेड केवाईडी विवरण (स्व-सत्यापित पैन, पहचान का प्रमाण, पूरा डाक पता, नमूना हस्ताक्षर, बैंक खाता विवरण/कैसिल्ड चेक या बैंक-सत्यापित विवरण) और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ मूल शेयर प्रमाण पत्र या डीपीट खाता विवरण और, कानूनी उत्तराधिकारियों के मामले में, अपेक्षित ट्रांसमिशन दस्तावेज, कंपनी के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी एनआईसीआईएस कॉर्पोरेट एलएएपी (एलएएपीआईएन: एएएस-9649), 03, संकर विहार, दूसरी मंजिल, विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092 को प्रस्तुत करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण का प्रतिक्रिप्त प्राप्त किया जा सके। प्रलेखन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, ई-मेल: info@nvis.co.in
हाट्टान कम्प्युनिकेशंस लिमिटेड के लिए हस्ता./- संजीता मौलिक
प्रबंध निदेशक (डीआईएन: 00994408)
स्थान: गुरुग्राम दिनांक: 29-07-2026

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2026			
(₹ in crores, except per share data)			
Particulars	3 Months ended 30/Jun/2026 (Unaudited)	30/Jun/2025 (Unaudited)	Year ended 31/Mar/2026 (Audited)
Total Income from operations	1950.14	1904.17	7281.96
Net Profit/(loss) for the period from continuing operations (before tax and exceptional items)	4.68	(8.73)	260.18
Net Profit/(loss) for the period from continuing operations before tax (after exceptional items)	4.68	(8.73)	249.17
Net Profit/(loss) for the period from continuing operations after tax (after exceptional items)	3.65	(6.62)	183.77
Net Profit/(loss) for the period from discontinued operations (before tax and exceptional items)	-	11.59	118.02
Net Profit/(loss) for the period from discontinued operations before tax (after exceptional items)	-	11.59	114.97
Net Profit/(loss) for the period from discontinued operations after tax (after exceptional items)	-	8.72	84.94
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3.99	2.65	270.77
Equity share capital	22.04	21.89	21.89
Other equity			3320.94
Earnings/(loss) per share of ₹1/- each for continuing operations (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	0.17	(0.30)	8.34
(b) Diluted (in ₹)	0.17	(0.30)	8.34
Earnings/(loss) per share of ₹1/- each for discontinued operations (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	-	0.40	3.85
(b) Diluted (in ₹)	-	0.40	3.85
Earnings/(loss) per share of ₹1/- each for continuing and discontinued operations (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	0.17	0.10	12.19
(b) Diluted (in ₹)	0.17	0.10	12.19
Notes:			
1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under: (₹ in crores)			
Particulars	3 Months ended 30/Jun/2026 (Unaudited)	30/Jun/2025 (Unaudited)	Year ended 31/Mar/2026 (Audited)
Total Income from operations	1949.91	1903.95	7281.59
Profit/(loss) from continuing operations before tax (after exceptional items)	(2.34)	(19.02)	235.02
Profit/(loss) from continuing operations after tax (after exceptional items)	(1.72)	(14.31)	173.62
Total comprehensive income	(1.44)	(5.04)	260.62
2. The Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench ('Hon'ble NCLT') vide its orders dated May 7, 2026 and May 18, 2026 has approved the Composite Scheme of Arrangement ('the Scheme') amongst Triveni Engineering & Industries Limited ('TEIL the Company'), Sir Shadi Lal Enterprises Limited ('SSEL') and Triveni Power Transmission Limited ('TPTL'). Certified copies of Hon'ble NCLT's orders were filed with the Registrar of Companies on May 19, 2026 ('Effective date'). In accordance with the Scheme:			
(a) SSEL stands amalgamated with TEIL w.e.f. the amalgamation appointed date of April 1, 2025 and accordingly, accounted for in the quarter ended March 31, 2026. The figures for the comparative quarter ended June 30, 2025 have been restated to reflect the effect of amalgamation.			
(b) Power Transmission Business undertaking (PTB undertaking) of TEIL has been demerged and vested in TPTL as a going concern, w.e.f. the demerger appointed date of April 1, 2026, as approved by Hon'ble NCLT. Consequent to transfer of PTB undertaking to TPTL and TPTL becoming an associate of the Company w.e.f. April 1, 2026, the Group has considered its share in TPTL's results under the equity method of accounting. In terms of the requirements of Ind AS 105 'Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations' and Schedule III to the Companies Act, 2013, operations of PTB undertaking of comparative periods have been classified as 'Discontinued operations' in the financial results.			
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended June 30, 2026 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.trivenigroup.com).			
For TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED			
Sd/-			
Dhruv M. Sawhney			
Chairman & Managing Director			
Date : July 29, 2026			
Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305			
Corp. Office: 8 th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301			
Website: www.trivenigroup.com CIN: L15421UP1932PLC022174			

Edelweiss ECL Finance Ltd.	ईसीएल फाईनैस लिमिटेड	परिशिष्ट IV कच्चा सूचना
पंजीकृत कार्यालय: टॉवर 3, विंग-बी, कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुल्ला (पश्चिम) मुंबई - 400070, महाराष्ट्र		
जबकि, ओहोहस्ताक्षरी, ईसीएल फाईनैस लिमिटेड (ईसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी, वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन निगमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 11.05.2026 की मांग सूचना निम्नालिखित आधारकर्ता/सह-आधारकर्ता को जारी की गई थीं, जिसमें उन्हें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने हेतु कहा गया था। आधारकर्ता द्वारा देय राशि का पुनर्गुप्तान करने में अग्रफल रहने के कारण, एतद्वारा आधारकर्ता/सह-आधारकर्ता तथा सामान्य जन को सूचित किया जाता है कि ओहोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कच्चा ग्रहण कर लिया है। आधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित आसितियों के विमोचन हेतु उपलब्ध समय से संबंधित हैं। विशेष रूप से आधारकर्ता तथा सामान्य रूप से जनता को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार न करें तथा संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार, यहाँ नीचे उल्लिखित राशि तथा उस पर देय ब्याज के लिए ईसीएल के प्रभार के अधीन होगा।		
उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण
ऋण खाता संख्या: L246ECSLP000005231347 एवं L246ECSLP000005231354	11-05-2026 एवं ऋण खाता संख्या L246ECSLP000005231347 के संबंध में दिनांक 07-05-2026 तक देय रु. 1,52,64,339/- (रुपये एक करोड़ बावन लाख चौंसठ हजार तीन सौ उन्तालीस मात्र)	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: पूर्ण वित्तीय तल का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि छत के अधिकांश सहित, संपत्ति संख्या सी-6/5, क्षेत्रफल 228.66 वर्ग गज, गोंव सफरी कल्ल के राजस्व क्षेत्र में, राणा प्राणय बाग, दिल्ली-110007 डिफेंस/ अधिक स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया गया है कि श्रीमती मिनी गुप्ता के पक्ष में निष्पादित त्याग विलेख दिनांक 15.01.2021, दस्तावेज संख्या 778, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 9555, पृष्ठ संख्या 124-128, जो दिनांक 16.01.2021 को एसआर-वीआ, नई दिल्ली में पंजीकृत है, तथा श्री मुकेश कुमार गुप्ता के पक्ष में निष्पादित विभाजन विलेख दिनांक 24.07.2024, जो एसआर-वीआ, पीतम्पुर में विधिवत पंजीकृत दस्तावेज संख्या 2024/15/1/10473, पुस्तक संख्या 1, वॉल्यूम संख्या 13634, पृष्ठ संख्या 149 से 164, दिनांक 24.07.2024 के रूप में दर्ज है।
2. मेसर्स शिवा एंजोसिस्टिइस (उधारकर्ता एवं आवेदक) 2. मेसर्स वैणो एंट्रमाइजेज (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक) 3. रजनी गुप्ता (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक) 4. नितिन गुप्ता (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक) 5. निधि एंट्रमाइजेज (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक) 6. मिनी गुप्ता (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक) 7. संधि गुप्ता (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक) 8. मुकेश कुमार गुप्ता गुप्ता (सह-उधारकर्ता एवं सह-आवेदक)	उपरोक्त तिथि के अनुसार कुल संचयी बकाया राशि रु. 1,87,61,928.33 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख इकसठ हजार नौ सौ अठ्ठाईस एवं तैंतीस पैसे मात्र)	28-07-2026
दिनांक: 30.07.2026, स्थान: दिल्ली		हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी कुते ईसीएल फाईनैस लिमिटेड

HDFC BANK We understand your world	प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, जेनापति बागट मार्ग, कोअर परेड (सेक्टर), मुंबई-400013 आंचलिक कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., विशेष कार्य विभाग, भू तल, गुलाब
--	--